

5th September, 2025

To,
The Manager,
Corporate Services,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400051

NSE Symbol: MAXPOSURE

Subject: Newspaper Advertisement – Requesting the shareholders of the Company to get their Email IDs updated with the Company

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the newspaper published today i.e. 05th September, 2025 in Financial Express, English Newspaper (All India Edition) and Jansatta, Hindi Newspaper (Delhi Edition) requesting the shareholders of the Company to get their Email IDs and other related details updated with the Company with respect to the 19th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, 29th September, 2025 at 04:30 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means.

You are requested to kindly take the aforesaid disclosure on records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Maxposure Limited

Priya Kesari
Company Secretary and Compliance Officer
ACS 22710

Maxposure Limited

#TheAddress, Plot No 62, Okhla Phase-3, New Delhi-110020, India Tel +91-11-43011111, Fax +91-11-43011199 CIN L22229DL2006PLC152087

FINANCIAL EXPRESS



KNR CONSTRUCTIONS LIMITED

CIN: L74210TG1995PLC130199 Read. Office: KNR House. 3rd & 4th Floor. Plot No: 114. Phase-I, Kavuri Hills, Hyderabad - 500033. Ph: 040 -40268759 / 61 /62, Fax: 040-40268760; website: knrcl.com; E-mail: investors@knrcl.com

NOTICE OF THE 30th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Compan

"KNR Constructions Limited" is scheduled to be held on Thursday, the 25th day of September, 2025 at 11.00AM through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact such items of business as set out in the Notice calling the 30th AGM of the Company, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read together with General Circular 09/ 2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI vide its Circular dated October 03, 2024. The AGM Notice and the Annual Report have also been uploaded on our corporate

website – www.knrcl.com, in the websites of the stock exchanges i.,e www.bseindia.com www.nseindia.com and on the website of CDSL - www.cdslindia.com. Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of th

Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosur Requirements) Regulation, 2015, the Company is providing e-voting facility to all it: members holding shares either in physical or in dematerialized form to cast their vote electronically. The Board has appointed Mr. Vikas Sirohiya, Practicing Company Secretary for conducting the e-voting process in accordance with law in a fair and transparen manner. The Company has engaged the services of CDSL for e-voting facility and i available at www.evotingindia.com.

a) All the items of business may be transacted through voting by electronic means. b) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on th cut-off date i.e., Thursday, 18th September, 2025 may cast their vote electronically on the items of business as set out in the Notice. The voting right of the members for e-voting and voting during AGM shall be in proportion to their shareholding in the paid up equity share capital of the Company as on the said cut-off date.

c) Sending of all Notices through e-mail was completed by the Company on 3rd September, 2025 d) The voting period commences on Monday, 22nd September, 2025 (9.00 A.M.) and ends on Wednesday, 24th September, 2025 (5.00 P.M.). The e-voting module shall be disabled by the CDSL thereafter and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it cannot be changed subsequently.

e) Any person who becomes a member of the Company after sending the Notice of the AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members as on the cut-off date, i.e., 18th September, 2025 may view the Notice of AGM on the website of the Company www.knrcl.com or on the website of CDSL - www.cdslindia.com Such person may obtain the login id and password by sending a request at

evoting@cdslindia.com. However if the person already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can cast the vote by using existing User Id and password and by following the procedure as mentioned in the Notice.

f) Those members who attend the AGM through VC/OAVM facility and have not cas their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM through VC/OAVM through CDSL e-voting system.

g) The member who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again h) The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can get the same registered with the Company for the purpose of this AGM by sending their Name and Folio No/DP ID and Client IE to rnt.helpdesk@linkintime.co.in (Email id of Company's Registrar and Share Transfe Agent) to receive the Notice of the AGM with login credentials for e-voting purpose as the Notice to the members shall be given only through the email ids registered with the Company or with the depository participant/depository. For persons holding shares in demat shall contact their DP for registering their email id with the concerned

i) For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section 'E-voting instructions' in the Notice of the AGM. Members having any queries or issues regarding e-voting may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write ar email to helpdesk. evoting@cdslindia.com. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Maratho Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.) embers may contact Mrs. Haritha Varanasi, Company Secretary and Compliance Officer for any concern connected with e-voting by writing an e-mail to

investors@knrcl.com. By order of the Board Haritha Varanasi

Place: Hyderabad Date: 04-09-2025 Company Secretary & Compliance Officer

GALLANT

GALLANTT ISPAT LIMITED CIN: L27109UP2005PLC195660

Sahjanwa, Gorakhpur - 273209, Uttar Pradesh

Contact No: 0551-3515500; www. gallantt.com; E-mail: csgml@gallantt.com; NOTICE OF 21ST ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Regd. Office: Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA),

NOTICE is hereby given that the 21" Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, September 27, 2025 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM").

Notice of the Meeting setting out the businesses to be transacted thereat and the Annua

Report for the year ended March 31, 2025 has been sent through email to the Members whose email addresses have been registered with the Company/ Depositories in accordance with the General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 10/2022, 11/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023, 09/2024 dated September 19, 2024 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/ HO/ CFD CFDPoD-2/ P/ CIR/ 2024/ 133 dated October 3, 2024 read with Circular Nos. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 dated 6th October, 2023, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars").

The Annual Report for the financial year 2024-25 and AGM Notice is available and can be downloaded from the Company's website at www.gallantt.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com; NSE at www.nseindia.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

Further, the Board of Directors, at their meeting held on May 21, 2025, has, inter alia recommended a dividend of Rs. 1.25 (12.5%) per equity share of face value of Rs. 10 each for the Financial Year ended March 31, 2025, to the Members of the Company for their approval at the 21" AGM.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Book of the Company shall remain closed from Monday. September 22, 2025 to Saturday, September 27, 2025 (both days inclusive) for the purpose of determining the Members eligible to receive the aforesaid dividend.

The aforesaid dividend, if declared by the Members at the 21" AGM, will be paid subject to deduction of income tax at source ('TDS'). The dividend on Equity Shares, if approved by the Members, will be credited/dispatched within 30 days from the conclusion of AGM, to those Members whose names shall appear in the Register of Members of the Company as on the close of business hours on Friday, September 12, 2025 (Record Date), and in respect of the shares held in dematerialized form, the dividend will be paid to Members whose names are furnished by NSDL and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on the Record Date.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the 21" AGM of the Company. The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing facility of voting through e-voting system during the AGM. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide e-voting facility.

password along with the Notice convening the meeting, has been sent to the members. The Notice of the Meeting is also available on the website of the Company at www.gallantt.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the website of the Stock Exchanges on which the Equity Shares of the Company are

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and

- The remote e-voting facility shall commence on Wednesday, September 24, 2025 (9:00 am) and ends on Friday, September 26, 2025 (5:00 pm). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
- C. A person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial owners as on the cut-off date i.e. September 20, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the meeting.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdi.com or csgmi@gallantt.com
- E. The members who have cast their vote by remote e-voting may join the meeting through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and
- have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. G. The detailed procedure for remote e-voting, e-voting during the time of AGM and
- participation in the AGM through VC/OAVM is provided in the Notice of the AGM.

In case of any query / grievances relating to the voting by electronic means, the Members / Beneficial Owners may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL by email at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000. For Gallantt Ispat Limited

Place: Gorakhpur

Date: September 04, 2025

(Nitesh Kumar)

Company Secretary M. No. F7496

SRM ENERGY LIMITED SRM Energy CIN: L17100DL1985PLC303047

Regd. Off: Room No. 2, Ground Floor, 1A Mall Road, Shanti Kunj, Vasant Kunj, New Delhi - 110070 Phone: +91 (11) 4576 8283 Email: info@srmenergy.in, Web: www.srmenergy.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the members of SRM Energy Limited ("the Company") will be held on Friday, 26th September, 2025 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR) read with MCA General Circular Nos. 14/2020 dated Apri 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and SEBI circular no. SEBI/HO/ CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024, which permits the company to convene the AGM through VC/OAVM without the presence of the members at a common venue. Hence the AGM of the Company is being held through VC/OAVM to transact the business as set out in the Notice of the said AGM.

by way of electronic mode (e-mail) only, whose e-mail addresses are registered with the Company's RTA/Depository Participants. The Annual Report for the F.Y. 2024-25 is available and can be downloaded from the website

In compliance with the aforesaid circulars please take note that the Annual Report containing

the Notice of the AGM for the Financial Year 2024-25 has been sent to all the shareholders

of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com where shares of the Company are listed and the website of the Company at http://www.srmenergy.in/.

Further, in compliance with Regulation 36(1)(b) of SEBI Listing Regulations, a letter containing the web-link where the details of the Complete Annual Report and Notice of the Annual General Meeting can be accessed, has been sent to all the shareholders of the Company Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") along with the applicable Rules made thereunder, it is hereby intimated that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 20, 2025 to Friday, September 26, 2025 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations the Company has provided all its members (holding shares both in physical and in electronic form) the facility to exercise their vote electronically on the resolutions as enumerated in the Notice of the AGM, through the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) The Cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their vote electronically is Friday, September 19, 2025.

Members holding shares in physical mode and whose email address is not registered/updated with the Company / RTA, may register the same by completing their KYC in terms of SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 issued on June 23, 2025. Members may download KYC forms, the instructions, etc. by following link: http:// www.srmenergy.in/Home/InvestorRelations. Members whose shares are in Demat mode may approach their depository participant for updating their email address/other details.

All the members are informed that (a) the business set out in the Notice of 38th AGM shall be transacted by electronic voting only, (b) the dispatch of Annual Report (by way of Email only) for the financial year 2024-25 has been completed on September 04, 2025 (c) the voting through electronic means shall commence at 9:00 A.M. on Tuesday, September 23, 2025 and ends at 5:00 P.M. on Thursday, September 25, 2025, (d) voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on September 25, 2025 (Thursday), (e) The Notice of the 38th Annual General Meeting is available on the Company's website at http:// /www.srmenergy.in/ and CDSL Website https://www.evotingindia.com/ and (f) for the process and manner of the electronic voting and to join the AGM (through VC/OAVM), members may go through the instructions as contained in the Annual Report 2024-25 (at page no. 87 to 90) or visit CDSL's website at: https://www.evolingindia.com/Help.jsp

In case any person becomes a member after dispatch of the aforesaid Notice/Annual Report and holding shares as on September 19, 2025 (i.e. the Cut-off date for entitlement of Shareholders to cast their vote electronically) may follow the aforesaid instructions as mentioned in the Annual Report for e-voting and also to join the meeting through VC/OAVM. The electronic voting shall also be made available to the members participating in the AGM who have not already cast their vote by e-voting. The members who have cast their votes by evoting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Satish Kumar Nirankar of S.K. Nirankar & Associates (FRN: S2018UP570400), Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizers, for the ensuing Annual General Meeting All grievances connected with the facility for voting by electronic means and to join the AGM through VC/OAVM, may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Matatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East). Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911

For SRM Energy Limited

(Pankaj Gupta) Date: 04.09.2025 Company Secretary Place: New Delhi ICSI M. No. A63088



CIN - L72900DL2009PLC341980 Regd. Office: Awfis, 1st Floor, A-24/9,

E2E Networks Limited

Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044, Phone No. +91-11-4084-4964 Email:cs@e2enetworks.com.Website:https://www.e2enetworks.com/

NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of E2E Networks Limited ("the Company") will be held on Friday, September 26, 2025 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio-Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the businesses as set out in the Notice of

The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e., Awfis, First Floor, A-24/9, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044. The attendance of members attending through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the guorum for the AGM. The Company has sent the Notice of the 16th AGM and Annual Report for the

financial year 2024-25, through electronic mode (i.e. emails) to the shareholders whose e-mail addresses were registered with the Company/ MUFG Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participants as on Friday, August 29, 2025 in accordance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 ("MCA Circulars"), the Securities Exchange Board of India ("SEBI") vide circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CFD- PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 ("SEBI Circulars") ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on Thursday, September 04, 2025.

The Notice of AGM and Annual Report is also available on the website of the Company at www.e2enetworks.com and on the website(s) of the stock exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, where the Company's shares are listed and on the website of MUFG Intime India Private Limited ("MUFG Intime") at https://in.mpms.mufg.com/ The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2024-25 has been dispensed with pursuant to the aforesaid Circulars. However, in case shareholders request for the same, physical copy of the Annual Report will be sent to them. Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic

platform provided by MUFG Intime. Members are requested to visit https:// instavote.linkintime.co.in/ and access the shareholders'/ members' login by using the remote e-voting credentials provided to them. Members are requested to update/register their KYC details including e-mail address and bank accounts details through your DP to register/update KYC

details such as PAN, e-mail addresses and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

Instructions for remote e-Voting and e-Voting:

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act. 2013 ("Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("Listing **Regulations**"), the Members are provided with the facility to cast their votes on all the resolutions as set out in the Notice of the AGM using electronic voting system ("remote e-voting") provided by MUFG Intime. Member's holdings share either in physical form or dematerialized form. as on Friday, September 19, 2025 ("Cut-off date") can cast their vote via remote e-voting facility of MUFG Intime through https://instavote. linkintime.co.in/. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depositories as on the Cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. The voting rights of the Members shall be in proportion to the paid-up value of their shares in the total voting capital of the Company as on the Cut-off date. Further, a person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purposes only
- The remote e-voting period will commence on Tuesday, September 23, 2025 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Thursday, September 25, 2025 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by MUFG Intime thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.
- Information and instructions comprising manner of voting, including remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM as well as in the email sent to the members by MUFG Intime. iv. Members who have acquired shares after the sending of the Annual Report
- through electronics means and before the Cut-off date i.e. Friday, September 19, 2025 may obtain the User ID and password by sending a request to the Company at investors@e2enetworks.com or to MUFG Intime at enotices@in.mpms.mufg.com Members attending the AGM through VC / OAVM but who have not casted their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through
- shall be eligible to attend the AGM through VC / OAVM, however they shall not be eligible for e-voting at the AGM. Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set forth in

e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting

the Notice of the AGM through remote e-Voting or e-Voting during the AGM in the manner provided in the Notice of the AGM. vi. The Annual Report for the financial year ended March 31, 2025 and the Notice of AGM is also available on the https://www.e2enetworks.com/. vii. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Ankush Agarwal,

the e-Voting process in a fair and transparent manner.

Date: September 04, 2025

Place: New Delhi

(Membership No. F9719 & COP No. 14486), Partner of MAKS & Co.,

Company Secretaries [FRN P2018UP067700], as Scrutinizer(s) to scrutinize

viii. In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the AGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of https://instavote. linkintime.co.in/ or send a request to Mr. Vishal Dixit, Team Member, MUFG Intime, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at the designated e-mail id instameet@in.mpms.mufg.com , who will address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at investors@e2enetworks.com

The Shareholders are also requested to carefully read the Notes set out in the AGM Notice for more details on process to be followed for joining the AGM and manner of casting vote etc.

> For E2E Networks Limited Ronit

WINSOME DIAMONDS AND JEWELLERY LIMITED UNDER LIQUIDATION

Registered Office as per MCA: Kesharba Market-2, Gotalawadi Katargam, Surat, Gujarat, India,

CIN - L36910GJ1985PLC015915, 395004 Invitation of Expression of Interest (EoI) under Insolvency and

Bankruptcy Code, 2016 for Assignment of Not Readily Realisable Assets

NOTICE is hereby given to public at large for inviting expression of Interest from interested parties in connection with the assignment of "Not Readily Realisable Assets (NRRA)" of Winsome Diamonds and Jewellery Limited - Under liquidation ("Corporate Debtor"). The Corporate Debtor is under liquidation by virtue of the Order dated 01.09.2020 passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench. The Corporate Debtor was engaged in the business of Jewellers and manufacturers and refiners of, dealers in, commission agent and exporters and importers of diamonds, gernstones, precious stones, bullions, gold silver, and other precious metals and minerals and ornaments and articles made thereof including jewellery, decorative and precious objects of art and craft. Offers are invited from the Interested Parties for assignment of NRRA under Regulation 37A of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 read with the provisions of Insolvency & Bankruptcy Code 2016. The assets of the Corporate Debtor is being offered for Assignment strictly on "AS IS WHERE

IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER IT IS", "WHATEVER THERE IS BASIS" and "WITHOUT RECOURSE BASIS" as such assignment is without any kind of warranties and indemnities. Detail of asset for Assignment of Not Readily Realisable Assets:

Description

No.			(Amount in INR.)
1.	Application filed under section 43, 45 & 66 of IBC, 2016		1358,04,00,000
2.	Receivable under balance sheet -	5674,21,26,742	
	**************************************	Book value (Amount in INR.)*	
	Investment in Government or Trust Securities	6,000	
	Security Deposits	40,35,337	
	Loans and advances (others)	84,440	
	Loans to others (unsecured, considered good)	21,74,85,518	
	Long Term Trade receivable	5652,05,15,447	
	Total		7032,25,26,742

Note: That this invitation purports to invite interested parties and does not create any kind of binding or obligation on the part of the Liquidator or the Corporate Debtor to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/ or not to accept and / or disqualify any bidder/ party without assigning any reason and without any liability. This is a non-binding process and shall be subject to discretion of Liquidator/Stakeholders Consultation Committee. As per proviso to clause (f) of the Section 35 of the Code, the interested bidders shall not be eligible to submit a bid if it fails to meet the eligibility criteria as set out in Section 29A of the IBC, 2016 (as amended from time to time). The intending

Date of Publication of Eol	05-09-2025	
Last date of submitting the eligibility documents	20-09-2025	
Date of declaration of qualified participants	24-09-2025	
Last date for Inspection/ Due diligence	01-10-2025	
Last date for submission of detailed offer in a sealed cover	04-10-2025	

Note: The Liquidator shall advise further process, terms and conditions etc. on review of offers received in consultation with the Stakeholders' Consultation Committee ("SCC"). For information on tender documents and other details, email your request at liquidator.winsome@gmail.com

Date: 05" September, 2025 Place: Mumbai

Brijendra Kumar Mishra Liquidator of Winsome Diamonds and Jewellery Limited- Under Liquidation Appointed vide order dated 14.02.2025 (Order received on 19.02.2025) IBBI Registration: IBBI/IPA-002/IP-N00109/2017-18/10257

AFA: AA2/10257/02/311225/203487 valid till 31.12.2025 nsolvency Professionals Pvt. Ltd., 1221, Maker Chamber V. Nariman Point, Mumbai- 400021 Email: liquidator.winsome@gmail.com

Rapid Multimodal Logistics Private Limited

Regd. Office- New No.44, Old No.78, Shrofforchards Chennal - 600010,

Tamil Nadu, India | Telephone No.: +91 044264 40181

E-mail: info@rapidlogistics.in | Website: www.rapidlogistics.in

CIN: L63030TN2020PLC136171

Notice is hereby given that the 5ⁿ Annual General Meeting of the members of

Rapid Multimodal Logistics Limited (formerly known as Rapid Multimodal

Logistics Private Limited) is scheduled to be held on Saturday, 27th September.

2025, at 03:00 P.M. at the registered office of the company situated at New

No.44, Old No.78, Shrofforchards Chennai - 600010, Tamil Nadu, India in

compliance with all the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("The

Act") and rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations & Disclosure

requirement regulations). 2015 to transact the business set out in the Notice

The Notice of AGM and the Financial Statements for the FY 2024-2025 along with

Board's report, Auditor's report, and other documents required to be attached

thereto (Collectively referred as "Annual Report") will be send only by e-mail

to all the members of the company whose e-mail address are registered with

the company/ Registrar & shares transfer agent (RTA) or Depository participant

(DP). The electronic dispatch of notice along with other documents has been

duly completed and will also be available on the company's website, i.e, 05th

In compliance with the provision of section 108 of the act read with rule 20

of Companies (Management & Administration rules), 2014 as amended from

time to time & Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure

Requirements) Regulations 2015 & Secretarial standards on General meeting

(SS-2), the company is pleased to provide remote e-voting facility ('Remote

E-voting ') to all the members to cast their votes on all resolutions set out in the

Notice of the AGM. Additionally, the company is providing a facility for e-voting

during AGM (e-voting) to all the members who have not cast their votes through

remote e-voting. The Procedure /Instructions in respect of remote e-voting have

The members of the company holding shares either in physical form or in

dematerialized form, as on the cutoff date, i.e, Saturday, 20th September, 2025,

shall be eligible to cast their votes by remote e-voting or attend the meeting at

Registered office of the company and cast votes at AGM. The voting rights shall

be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital as on the

cut-off date. The remote e-voting period will commence on Wednesday, 24th

September, 2025 at 09:00 A.M. and ends on Friday, 26th September 2025 at

Any person who becomes a member of the company after dispatch of the Notice

AGM & holding shares as on Saturday, 20th September, 2025, may obtain the

login ID & password by sending a request at info@rapidlogistics.in. Members

are requested to carefully read all the Notes which are set out in the Notice of

the AGM and instructions for joining the AGM, and the manner of casting votes

been provided in the Notice of AGM.

through remote e-voting during the AGM.

05:00 P.M.

Place: Chennai

Date: 05.09.2025

September, 2025 and the website of the BSE, i.e. www.bsesme.com.



Parle Industries Limited

Regd. Office: 310-311, The Avenue, Marol, Andheri East, Mumbai - 400059. Tel.: 022 40132875 Website: www.parleindustries.com Email: info@parleindustries.com NOTICE OF 42nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given to the members of Parle Industries Limited ('Company') pursuant to provisions of section

96 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended ('Rules'), that the 42nd Annual General Meeting of the Company ('AGM') to be held on Friday, 26th September, 2025 through VC/ OAVM at 12.30 P.M. (I.S.T.) to transact the business as set out in the notice of Pursuant to the MCA circulars and SEBI circulars issued from time to time, companies are permitted to hold

Annual General Meetings ('AGM') through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), without physical presence of the Members at a common venue and provided relaxation from dispatching of physical copy of Annual Report up to September 30, 2025. The Company has sent electronic copies of Annual Report along with the Notice of AGM on September 04, 2025 to those shareholders whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants as on the cut-

off date i.e. August 22, 2025. The Notice of AGM along with Annual Report for the financial year 2024-25, will be available on the website of the Company at www.parleindustries.com, on the website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at Members holding shares in physical form and who have not registered their email addresses with the

Company/Company's RTA, can get the same registered and obtain Notice of the 42nd AGM of the Company along with Annual Report for the financial year ended March 31, 2025 and/or login credentials for joining the 42nd AGM of the Company through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copies of following documents by email to the Company's RTA at ashok.sherugar@in.mpms.mufg.com or the Company at nfo@parleindustries.com

o. A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address, mobile number and email address to be registered; Self-attested scanned copy of the Pan Card; and

Card, Passport) in support of the address of the Members as registered with the company. Members holding shares in dematerialized form are requested to register / update their email addresses with

Members holding shares in physical form or dematerialized mode, as on cut- off date i.e., Friday, 19th September, 2025, being the cut-off date may cast their vote electronically on the resolutions set forth in the Notice of AGM

. The business, as set out in the notice of AGM, may be transacted through remote e-voting or e-voting system

. The remote e-voting period shall commence on Tuesday, September 23, 2025 at 9:00 A.M and shall end on Thursday, September 25, 2025 at 5:00 P.M.

The cut-off date for determining eligibility to vote by remote e-voting or e-voting at the AGM shall be Friday, September 19, 2025. Any member who acquires shares of the company and become the member of the company after dispatch of

notice and holding shares as of cut-off date i.e Friday, September 19, 2025 may obtain login ID and password

casted their vote on the Resolution through remote E-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM. Members who have voted through Remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not

The detailed procedure and instruction for remote e-voting and e-voting during the AGM are given in the Members may note that:

• The remote e-voting shall be disabled by NSDL after the e-voting closure date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by member, the member shall not be allowed to change it subsequently. • The facility for voting at the AGM shall be made available by the NSDL.

maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote evoting as well as voting in the AGM. The Notice of the AGM along with the Annual Report is made available on the website of the company at

Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. In case of any queries/grievances relating to voting by electronic means or technical assistance before and during the AGM, the member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL

Director & Chief Financial Officer: Email ID: evoting@nsdl.co.in Mr. Rakeshkumar Mishra Telephone No: 1800 1020 990/ 022-24997000/ Email id: info@parleindustries.com Telephone No: 022 40132875

Date: 05.09.2025

Whole Time Director DIN: 07730608

FOR PARLE INDUSTRIES LIMITED

Energy Limited CIN: L74999MH1994PLC077041

Registered Office: JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Phone: 022-4286 1000; Fax: 022-4286 3000; E-mail: jswel investor@jsw.in; Website: www.jsw.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING 100 DAYS CAMPAIGN - "SAKSHAM NIVESHAK" The Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), under the

Ministry of Corporate Affairs (MCA), has initiated a 100 days Campaign titled "Saksham Niveshak", starting from 28" July, 2025. The purpose of the Campaign is to create awareness among shareholders to update their KYC details, bank mandates and contact information and encourage them to claim any unclaimed dividends before the same is transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") as per the provisions of the Companies Act, 2013.

KYC details and claim their unpaid / unclaimed dividends through its communications. In furtherance of the aforesaid Campaign, shareholders who have not claimed dividend, are once again requested to take the following actions to update their KYC details and claim their unclaimed dividend:

A. Shares held in Dematerialized mode update their KYC details such as PAN, Email Address, Contact Number,

as well as their Nomination details with their Depository Participant; B. Shares held in Physical mode-

submit the below documents to KFin Technologies Limited (KFin), the RTA:

Form ISR-1: Filled and signed, with self-attested KYC documents

. Form SH-13: For adding a nominee

Shareholders may reach out to KFin for any queries related to updation of KYC or claim of unpaid / unclaimed dividend, at the details given below: KFin Technologies Limited

Unit: JSW Energy Limited

Selenium Building, Tower-B, Plot Nos. 31 & 32

Hyderabad - 500032, Telangana

Email: einward.ris@kfintech.com • Tel: 1800-309-4001 / 040-67162222

for any clarification. We encourage you to take full advantage of this initiative by updating submitting the required documents on or before 6° November, 2025, as per the

aforesaid instructions, to contribute to the success of the Saksham Niveshak Campaign. For JSW Energy Limited

Date: 4th September, 2025

Place: Mumbai Company Secretary



MAXPOSURE LIMITED

Regd, off: Ground Floor, 62, Okhla Industrial Estate, Phase-3 New Delhi - 110020. Phone: +91 (11) 43011111. Email: cs@maxposuremedia.com , Web: www.maxposuremedia.com

NOTICE

By Order of the Board

Neha Shukla

For Rapid Multimodal Logistics Limited

Company Secretary& Compliancer Officer

(Formerly known as Rapid Multimodal Logistics Private Limited)

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Maxposure Limited ("the Company") will be held on Monday, 29th September, 2025 at 04:30 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"), to transact the business that is set forth in the

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with MCA General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024, the Annual Report along with the Notice of the AGM for the FY 2024-25 will be sent only through electronic mode to all those Members as appearing in the Register of Members of the Company as on Friday, August 29, 2025 and whose email addresses are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.maxposuremedia.com, website of the stock exchange where the shares of the Company are listed i.e. NSE Limited (NSE Emerge) at https://www.nseindia.com/ and website of the Bigshare Services Private Limited (Bigshare/e-voting agency) at https://ivote.bigshareonline.com/.

with the Company/ Depository/RTA and whose name appear in the Register of Members as on Friday, August 29, 2025, i.e., the cut-off date. We urge members to support our commitment to environmental protection by choosing to receive the Company's communication in future through email. Members who have not registered their email address are requested to register the same by contacting their Depository Participants (DP) and register email

The Company will be providing the facility to all its members (as on Tuesday, September 23, 2025, i.e., Cut-off date) to cast their votes by electronic means through remote-voting services arranged by Bigshare. The electronic voting shall also be made available to the members participating in the AGM. The members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under section 103 of the Act. Detailed procedure for remote e-voting for Members along with the manner to vote and attend the AGM through VC /OAVM are provided in the Annual Report.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, the Register of Members/ Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 24.09.2025 to Monday, 29.09.2025 (both days inclusive).

This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA Circulars and SEBI

Priya Kesari Company Secretary and Compliance Officer ACS 22710

Company Secretary & Compliance Officer

epaper.financialexpress.com

addresses as per the process advised by the DP.

Date: 05.09.2025 Place: New Delhi

Book Value

a. A duly signed and completed Form ISR-1 Self-attested scanned of any document (such as Aadhar card, Driving License, Election Identity

the relevant Depository Participants.

through electronic system of NSDL ("remote e-voting"). All the members are hereby informed that:

by sending a request at evoting@nsdl.co.in. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility have not

. The person whose name is recorded in the register of members or in register of beneficial owners https://www.parleindustries.com/investors.html and on the website of the National Securities Depository

or Company as given below: NSDL Contact:

The Company has regulary been requesting shareholders to update their

Address, their Bank details such as account number, IFSC code, MICR

 Form ISR-2: Filled and signed, with banker's attestation of the shareholders signature plus original cancelled cheque (with the shareholders name printed) or self-attested bank passbook / statement

clientservices/isc/isrforms.aspx or from the Company's website at https://www.jsw.in/investors/energy/jsw-energy-investor-information-

Financial District, Nanakramguda, Serilingampally

Shareholders can also write to the Company at jswel.investor@jsw.in

Monica Chopra

CIN: L22229DL2006PLC152087

Further, in compliance with Regulation 36(1)(b) of SEBI Listing Regulations, a letter containing the web-link where the details of the Complete Annual Report including the Notice of the Annual General Meeting can be accessed will also be send to those shareholders who have not registered their email address (es)

In case of queries or grievances pertaining to e-voting, members are requested to contact Mr. Rajesh Kumawat, Assistant General Manager, Bigshare Services Private Limited, Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai-400093 or send an email to rajeshk@bigshareonline.com or call +91 7506071172.

For Maxposure Limited

New Delhi

. Form ISR-3: For opting out of nomination Shareholders can download these forms from https://ris.kfintech.com

investor-forms



मैक्सपोज़र लिमिटेड

CIN: L22229DL2006PLC152087 पंजीकृत कार्यालय: ग्राउंड फ्लोर, 62, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-3नई दिल्ली - 110020 फ़ोन: +91 (11) 43011111. ई-मेल: cs@maxposuremedia.com, वेब: www.maxposuremedia.com

नोटिस

इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि मैक्सपोज़र लिमिटेड ("द कंपनी") के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, दिनांक 29 सितंबर, 2025 को शाम 04:30 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के सहायतार्थ आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढ़ें। इन परिपत्रों में सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 तथा सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 संख्या शामिल हैं। आम बैठक की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जो शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त, 2025 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देंगे और जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.maxposuremedia.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी एनएसई लिमिटेड (एनएसई इमर्ज) की वेबसाइट https://www.nseindia.com/ और बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बिगशेयर/ई-वोटिंग एजेंसी) की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com/ पर भी उपलब्ध होंगे।

इसके अतिरिक्त, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 36(1)(बी) के अनुपालन में, वेब-लिंक वाला एक पत्र, जहां वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट का संपूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है, उन शेयरधारकों को भी भेजा जाएगा, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है किन्तु उनका नाम शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025, यानी कट-ऑफ तारीख तक रजिस्टर में दिख रहा है।

सदस्यों से हमारा विनम्र आग्रह है कि वे भविष्य में कंपनी के संदेश ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करके पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का समर्थन करें। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से संपर्क करके ई-मेल पता पंजीकृत अवश्य कराएँ।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को (कट ऑफ तिथि: मंगलवार, 23 सितंबर, 2025) को बिगशेयर द्वारा संचालित रिमोट-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजअल माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम हेत् गिना जाएगा।

सदस्यों के लिए वार्षिक रिपोर्ट में रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया, साथ ही वोट देने और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा शिकायत हेतु वे श्री राजेश कुमावत, सहायक महाप्रबंधक, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय संख्या S6-2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहरा सेंटर के बगल में, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400093 से संपर्क करें या rajeshk@bigshareonline.com पर ई-मेल भेजें या

इसके अतिरिक्त सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी सूचीकरण विनियम के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर/शेयर हस्तांतरण पुस्तकें बुधवार, दिनांक 24.09.2025 से सोमवार, दिनांक 29.09.2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

यह विज्ञापन कॉपॅरिट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं लाभ हेत जारी किया जा रहा है।

मैक्सपोज़र लिमिटेड की ओर से

प्रिया केसरी कंपनी सचिव एसीएस 22710

Swastik स्वास्तिक पाइप लिमिटेड CIN : L74899DL1973PLC006881

पंजीकृत कार्यालयः १/23बी, आसम अली रोड, अजमेरी गेट एक्सटेंशन, मध्य दिर्ल्स ल्ली, दिल्ली, गारत, 110002 info@swastikpipes.com Phone: 011-35453545 वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित होने वाली

स्वास्तिक पाइंप लिमिटेड के शेयरधारकों की 52वीं वार्षिक आम बैठक ('बैठक') की सूचना

सदस्यगण कृपया घ्यान दें कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (संबी) (सूत्रीबद्धता दायिख और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2016 (एलुओडीआर) के साथ पठित कार्पोर्ट्ट कार्य मंत्राल्य (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपन्न सं. 09 / 2023 दिनांक 25.09.2023 एवं अन्य परिपन्नों और सेबी परिपन्न दिनांक 07 10,2023 के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए कंपनी की 52वें वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमां (ऑएवीएम) के द्वार सोमवार, 29 सितंबर 2025 को प्रात: 11:00 बजे (आईएसटी) आयोजित की जाएंगी

संबंधित परिपन्नों के अनुपालन में बैठक की सूचना और अन्य दस्तावेज केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्टॉनिक मध्यम से भेज जाएँगे जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकत हैं। बैठक की सचना और अन्य दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://swastikpipes.com, स्टॉव एक्सचैज नेशनल स्टॉक एक्सचैज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseinda.com और ई—वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् मैसर्स नेशनल सिव्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि: उपर्युक्त प्रावधानों और एमसीए परिपन्नों के अनुपालन में कंपनी ने बैठक की सूचना ("सूचना") के साध व्याख्यात्मक विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के उने समी संदर्श्य को भेजन का काम पूरा कर लिया है जिनके ई-मेल पते शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 ('कट-ऑफ तिथि') तक

कंपनी / डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। ख. ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को प्रात: 8:00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी, -वोटिंग अवधि रविवार, 28 सितंबर 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उसके बाद

-वोटिंग मॉड्यल मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा केवल वे सदस्य जिनके नाम कर-ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितंबर 2025 तक कंपनी के सदस्यों के

रजिस्टर या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए लांगार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं केवल वह रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार हैं. कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आग

बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; रविवार 28 सितंबर 2025 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनमति नहीं दी

रिमोट ई-बोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश बैठक की सचना के नोटस में दिए गए हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने सीएस कर्म साइनी, पेशेवर कंपनी सचिव, सदस्यता संख्या ए६४९८६ की रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच करने और निष्पन्न एवं पारवर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम

से मतदान करने के लिए संवीक्षक नियक्त किया है। जिन सदस्यों को सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं, ये cs@swastikpipes.com पर लिखकर सूचना ईमेल से प्राप्त कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट से डाउनलीड कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com व

डाउनलॉड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) औ शेयरधारकों के लिए ई--बोटिंग यूजर मैन्अल देख सकते हैं या टोल-फ्री नं: 1800 1020 990 और 1800 224 430 पर कौल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मंज सकते हैं। ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्न / शिकायत, यदि कोई हों, के समाधान के लिए संपर्क विवरणः श्री अमन

गीयल, प्रबंधक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर I जिन सदस्यों ने अभी तक कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकत नहीं किए हैं वे निम्नानुसार ई-मेल पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

डीमैट प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम रो अपना ई-मेल पता अपडेट करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक की सूचना में दिए गए सभी नोट्स विषेश रूप से बैठक में षामिल होंने के निर्देश, रिमीट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तरीका

इसके अतिरिक्त, सेबी ने अपने दिनांक 30.05.2022 के परिपत्र के माध्यम से किसी सूचीबद्ध कंपनी और /या किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटो (आरटीए) और उसके शेयरवारकों / निवेशकों के बीच विवादों के लिए स्टॉक एक्सचेंज मध्यरधता तंत्र के अंतरांत विवाद समाधान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

यह सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और हितलाभ के लिए और एमसीए तथा सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में जारी की गई है। कृतं स्वास्तिक पाइप लिमिटेड की ओर र

स्थानः दिल्ली देनांक : 05.09.2025

डीआईएन : 00165391

रू. मिलियन में

31.03.2023

घ कम्पनी के प्रबन्धन का संक्षिप्त विवरण

+917506071172 पर कॉल करें।

दिनांक: 05.09.2025

स्थान: नई दिल्ली

सीने डार्सल लोनिस्टिक्स लिभिटेड

पंजीकृत कार्यालयः डार्सल हाउस, प्लॉट न. 55पी, इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर 44, गुरूग्राम 122003 फोन नं. 90152-02121 फैक्स: 0124-4034162 ई-मेल: compliance@cjdarcl.com, reachus@cjdarcl.com कम्पनी पहचान संख्या : U60222HR1986PLC068818

मुख्य कार्यालयः १९, तिलक बाजार, हिसार-१२५००१ (हरियाणा) फोन नं. 01662-241003-6 , फैक्स: 01662-232269 , ई-मेल: hisar@cjdarcl.com , वेबसाइट: www.cjdarcl.com

जमा आमंत्रित करने के लिए परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र (धारा 73(2) (क) और धारा 76 और कम्पनी (जमा की

	स्वी	मृति नियम,	2014 के नियम 4 (1) और नियम 4(2) के अनुसरण में)
1. स	ाधारण सूचना	200	
क	कम्पनी का नाम, पता,	नाम :- सीजे	डार्सल लोजिस्टिक्स लिमिटेड

1. सा	l. साधारण सूचना				
क	कम्पनी का नाम, पता,	नाम :- सीजे डार्सल लोजिस्टिक्स लिमिटेड			
	वैबसाईट एवं अन्य सम्पर्क ब्यौरे	पंजीकृत कार्यालयः डार्सल हाउस, प्लॉट न. 55पी, इंस्टीटूशनल एरिया, सैक्टर 44, गुरूग्राम 122003			
		फोन नं॰ 90152-02121 फैक्सः 0124-4034162,			
		ई-मेलः compliance@cjdarcl.com, reachus@cjdarcl.com			

कम्पनी पहचान संख्या : U60222HR1986PLC068818

रव कम्पनी के निगमन की तारीख 10 दिसंबर 1986 निजी कम्पनी । जलाई 1994 को मानी गई पब्लिक कम्पनी । दिसंबर 1998 को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी

ठा कम्पनी और उसकी समनुषंगी द्वारा कंपनी मुख्य रूप से सड़क, रेल और समुद्री परिवहन के माध्यम से वाहक व्यवसाय, एकीकृत लॉजिस्टिक्स समाधान और किया जा रहा कारोबार और उसकी मल्टीमॉडल परिवहन परिचालनों में विशिष्ट लॉजिस्टिक्स और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों में लगी हुई है और इसकी 3 पूर्ण

टांसरेल लोजिस्टिक्स लिमिटेड जो की सड़क परिवहन का व्यसाय करती है। 2 डार्सल लोजिस्टिक्स (नेपाल) प्राइवेट लिमिटेड जो की नेपाल में परिवहन का व्यसाय करती है।

सीजे कोरिया एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड परिवहन और वेयरहाउसिंग का व्यसाय करती है। हिसार, दिल्ली, गुरुग्राम, अहमदाबाद, बैंगलौर, बड़ौदा, भोपाल, चन्देरिया, चेन्नई, गांधीधाम, हिल्दया, गुवाहटी, जामनगर, जमशेदपुर, कोलकाता, मुम्बई, नागपुर, रायगढ़, सूरत, तारापुर, टाटा नगर, तुतीकोरिन

कंपनी अपने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, संयुक्त एवं प्रबंध निदेशक, तथा निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन प्रबंधित किया जाता है।

क्रमांक नाम		पता	डिन	उपजीविका
1	श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल	बी-05/405, तृतीय तल, सहारा ग्रेस, सहारा मॉल के पीछे, गुड़गांव-122002, हरियाणा।	00151179	व्यवसायी
2	श्री दर्शन कुमार अग्रवाल	बी-374, लोक विहार, पितमपुरा, नई दिल्ली।	00151560	व्यवसायी
3	श्री रोशन लाल अग्रवाल	20/51, वैस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली।	00151657	व्यवसायी
4	श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	ए-05/110, पीडी-1, सहारा ग्रेस, सहारा मॉल के पीछे, एम.जी. रोड़, गुड़गांव-122002, हरियाणा।	00052456	व्यवसायी
5	श्री जंग हुन बैग	36-5, नामगोक-गिल, नोंगसो-मायऑन गिमचेओन-सी, ग्यनसंगबुक-डो, कोरिया-39659	09268841	पेशेवर
6	श्री ह्युन चुल यू	108-डोंग 601-हो 130 सदांग-रो 27-गिल, डोंगजक-गु, सियोल मेट्रोपॉलिटन	10667938	पेशेवर
7	श्री ग्वोन दूंग किम	508-डोंग, 1106-हो, 25, हनेउलमाउल 1-आरओ, इल्सांडोंग-गु, गोयांग-सी, ग्योंगगी-डो, कोरिया गणराज्य	10669349	पेशेवर
8	श्री ताए ग्युन किम	2401-डोंग 501-हो 90 डोंगबेक आरओ, गिहेडंग योंगिन सी, ग्योंगगी-डो	10947317	पेशेवर
9	श्री वोंचन ली	12-डोंग 201-हो, 14 ह्योरयोंग-आरओ 72-गिल, सेचो-गु, सियोल, कोरिया	09691345	पेशेवर
10	श्री ह्यून चुल मेंग	1-706 40, सिलिम-आरओ 3-गिल, ग्वानाक-गु, सियोल, कोरिया गणराज्य	12018711	पेशेवर
11	श्रीमती निधि अग्रवाल	ई-501, यूनीवर्ल्ड सिटी ईस्ट, सेक्टर 30, गुड़गांव 122001 (हरियाणा)	10218762	पेशेवर
12	श्री सुबोध गोयल	फ्लैट डी-803, एम 2 के विक्टोरिया गार्डन, आजादपुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली 110033	09780754	पेशेवर

कम्पनी अपने कोषों का उपयोग अपने व्यवसाय में ही करती है अतः कोई भी जोखिम (साधारण व्यवसायिक जोखिम को छोड़कर) नहीं है जिसका सामना प्रत्येक कम्पनी को करना पड़ता

है। कम्पनी ने अपने दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय व सम्पत्तियों की जोखिम से रक्षा के लिए पर्याप्त बीमा ले रखा है। व्यतिक्रम के ब्यौरे, इसमें सम्मिलित रकम के साथ, व्यतिक्रम की अवधि और निम्नलिखित के प्रतिसंदाय की वर्तमान स्थिति

शून्य शून्य 3 किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से ऋण और उनका ब्याज

जमा स्कीम के विवरण बोर्ड के संकल्प पारित करने की तारीख 24.06.2025 जमा को आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत करने वाला संकल्प पारित करने की तारीख; 31.10.2014 जमा की प्रकार (प्रतिभृति सहित अथवा प्रतिभृति रहित) प्रतिभूति रहित जमा राशि का विवरण (मिलियन रुपए में) i) वह रकम जो कम्पनी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अनसार जमा द्वारा स्वीकार की जा सकेगी। जनता से 1799.79 मिलियन अंशधारियों से 2519.71 मिलियन (35% of Net Worth) ii) वास्तविक जमा राशि जो ले रखी है :-अ) तत्काल पर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन यानी 31.03.2025 को रू. 185.80 मिलियन*

आ) इस प्रपत्र या विज्ञापन को जारी करने की तिथि पर 24.06.2025 रू. 194.87 मिलियन*

रू. 450.00 मिलियन iii) प्रस्तावित जमा राशि अगले 12 महीनें में प्रतिसंदाय के लिए देय राशि 24.06.2025-23.06.2026 रू. 102.56 मिलियन* इसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल जमा रिटर्न (फॉर्म-डीपीटी-3) में दर्शाई गई डीड जमा रू. 1.90 मिलियन शामिल नहीं है।

😨 जमा जुटाने, भुगतान की अवधि, ब्याज दर, भुगतान की रीति और उसका प्रतिसंदाय

I. असंचयी जमा योजना (ब्याज तिमाही देय)

06 महीने एवं 12 महीने से कम 50,000/-6.00% 12 महीने एवं 24 महीने से कम 50,000/-7.25% 24 महीने एवं 36 महीने से कम 50,000/-7.50% 50,000/-7.75%

म संस्थी ज्या योजन (ज्यान जननि विसरी)

ङ जमाकत्ताओं की कुल संख्या

संख्याए व्यतिक्रम की रकम और अवधि

जमाकताओं द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज में कोई छूट

II. सचर्या जमा याजना (ब्याज चक्रवृद्धि तिमाहा)					
अवधि	न्यूनतम जमा राशि (रू)	वार्षिक ब्याज दर	वार्षिक प्राप्ति	परिपक्कता राशि (रू)	
06 महीने	20,000	6.00%	6.05%	₹. 20605/-	
12 महीने	20,000	7.25%	7.45%	रू. 21490/−	
24 महीने	20,000	7.50%	8.01%	₹5. 23204/-	
36 महीने	20,000	7.75%	8.63%	रू. 25179/−	

न्यूनतम एवं अधिकतम जमा राशि की अवधि क्रमशः 6 महीने एवं 36 महीने है। 6 महीने एवं 36 महीने के बीच की अवधि में जमा राशि दोनों असंचयी एवं संचयी जमा योजनाओं के अन्तर्गत

1. न्युनतम राशि से अधिक की जमा राशि 1000/– रुपए के गुणकों में स्वीकार की जायेगी। असंचयी जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर जमाधारक की प्रार्थना पर ब्याज मासिक दिया जा सकता है।

2. वरिष्ठ नागरिकों को दोनों योजनाओं में 0.50% प्रतिवर्ष अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा

ı	भुगतान	ा की विधिः	चैक, डिमांड ड्राफ्ट, एन. ई. एफ. टी एवं आर.टी.जी.एस
ı	पुर्नभुग	तान की विधिः	चैक, डिमांड ड्राफ्ट, (एन. ई. एफ. टी एवं आर.टी.जी.एस प्रार्थना पर)
ı		प्रस्तावित समय अनुसूची	
ı		स्कीम के प्रारम्भ की तारीख	05.09.2025
ı		समयावधि, जब तक परिपत्र या विज्ञापन मान्य है :	30.09.2026 अथवा वितीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक साधारण सभा जो भी पहले हं
ı	ज	जमा जुटाने के कारण या उद्देश्य- अल्प अवधि धन/सक्रिय	पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए
ı	झ	प्राप्त केडिट रेटिंग	
ı		i) क्रेडिट रेटिंग जारी करने वाली एंजेसी	क्रिसिल
ı		ii) प्राप्त रेटिंग	ए/स्थिर
		20: 2	

iii) प्राप्त रेटिंग का अर्थ iv) रेटिंग प्राप्त करने की तिथि 17.01.2025

च जमा के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के भुगतान में व्यतिक्रमए यदि कोई हो तो जिसमें जमाकताओं की श्रून्य

5 जुलाई 2018 से प्रभावी कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा छोड़ा गया। ट इस प्रकार की जमा प्राप्त करने के लिए सृजित या सृजित किये जाने वाले प्रभारए यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण- शून्य क्योंकि कम्पनी प्रतिभूति रहित जमा स्वीकार कर रही है।

258 (24.06.2025 तक), 278 (31.03.2025 तक)

👅 इस प्रकार की जमा में निदेशको, संप्रर्वतकों या मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों का कोई वित्तीय या अन्य सारवान हित और उस हित का प्रभावए जहाँ तक यह अन्य व्यक्तियों के हितों से भिन्न है- शुन्य 3 किसी बकाया जमा का विवरण:-

क 31.03.2025 तक स्वीकृत रकम 24.06.2025 को बकाया रू. 161.89 मिलियन ख स्वीकृति की तारीख 31.03.2025 तक रू. 185.79 मिलियन ग स्वीकृत कुल रकम घ ब्याज की दर 8.25% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि तिमाही तक

दिनांक: 05.08.2025

स्थानः गुड़गांव

4 कम्पनी की वित्तीय स्थिति

विवरण

क) परिपत्र या विज्ञापन जारी करने के पहले और उसके पश्चात की तारीख से पूर्व के तीन वर्ष के लिए कर का उपबन्ध करने से पहले और उसके पश्चात कम्पनी के लाभ रू.

वित्तीय वर्ष करो से पहले लाभ

1			
	की समाप्ति	(रू मिलियन में)	(रू मिलियन में)
ı	31 मार्च, 2023	842.63	659.54
ı	31 मार्च, 2024	989.22	795.40
l	31 मार्च, 2025	1089.67	855.15
	ख) तीन वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा घोषित लाभांशय पि	छले तीन वर्षों के लिए ब्याज कवरेज (कर के पश्चात नव	हद लाभ और ब्याज भुगतान के पश्चात नकद लाभ)
		• •	

वित्तीय वर्ष समाप्ति	घोषित लाभांश		ब्याज आवरण
	(रू मिलियन में)	%	अनुपात
31 मार्च, 2023	शून्य	शून्य	2.87 बार
31 मार्च, 2024	शून्य	शून्य	2.56 बार
31 मार्च, 2025	शून्य	शून्य	2.64 बार

31.03.2025

31.03.2024

परिसम्पतियाः-			
अचल सम्पत्तियां			
मूर्त सम्पत्तियां	4,853.88	4110.12	3282.19
उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति	826.50	765.89	793.47
प्रगतिशील पूंजी	-		129.65
अमूर्त संपत्ति	25.32	57.59	65.02
विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	1.76	-	3.65
निवेश संपत्ति	11.41	11.80	43.40
गैर चालू निवेश	185.20	180.58	185.18
अग्रिम धन			
i) ऋण व अग्रिम धन	820.96	361.75	96.25
गैर चालू कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	1102.87	1051.37	1063.00
अन्य गैर चालू सम्पत्तियां	84.13	29.80	28.36
कुल अचल सम्पत्तियां (ए)	7912.03	6568.90	5690.17
चालू सम्पत्तियां,			
स्कंध (रहतिया)	51.64	63.83	36.77
अनुबंध संपत्ति	442.25	464.15	357.45
अग्रिम धन			
i. मौजूदा निवेश		1.35	1.01
ii. व्यावसायिक देनदार	9862.93	8291.13	7565.42
iii. नकद और नकद समकक्ष	13.38	6.85	56.61
iv. उपरोक्त (iii) के अलावा बैंक बैलेस	38.39	45.64	68.63
v. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	777.87	425.69	317.67
वालू सम्पतियां	665.71	682.08	581.39
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (बी)	11852.17	9980.72	8984.95
बक्री के लिए रखी गई संपत्ति	22.74	6.87	20.40
कुल	19786.94	16556.49	14695.52
अंशपूजी व देयताएं			
अंशधारी कोष	4		
अंशपूजी	226.62	226.62	226.62
संचय व अतिरेक	7074.60	6239.97	5440.94
गैरचालू दायित्व	7301.22	6466.59	5667.56
गैर–चालू दायित्व			
वित्तीय दायित्व			
i. उधार	2380.31	1982.84	2347.28
ii.लीज दायित्व	1050.38	797.43	648.41
iii. अन्य वित्तीय दायित्व	49.28	38.93	36.53
कर्मचारी लाभ दायित्व	128.89	84.36	109.70
स्थगित कर दावित्व (शुद्ध)	281.34	201.61	120.15
कुल गैरचालू दायित्व	3890.20	3105.17	3262.07
चालू देयताएँ	1 1		
अनुबंध देयताएं	11.49	14.04	14.06
जनुषय दयतार चालू दायित्व	11.47	14.04	14.00
चालू दाायत्व i. उधार	5/00.00	4025 57	2720.20
ı. उधार ii.लीज दायित्व	5689.23	4935.57	3729.28
	266.56	229.26	164.56
iii.च्यापार देय			
-सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	0.48	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमी के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	1815.60	1376.87	1379.60
v. अन्य चाल देयतायें	287.89	22.68	100.61
अल्कालीन प्रावधान	13.75	26.04	20.00
कर्मचारी लाभ दायित्व	117.93	88.06	83.42
अन्य चालू देयतायें	392.59	292.21	274.36
कुल चालू देयतायें (सी)	8595.53	6984.73	5765.89
कुल इक्विटी और			
देयताएँ (ए+बी+सी)	19786.94	16556.49	14695.52

घ) इस परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से तत्काल पहले के तीन वर्षों के संपरीक्षित नकदी प्रवाह विवरणय

			रू. मिलियन में
विवरण	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (अ)	1208.32	965.79	1310.77
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ब)	(1450.56)	(1005.23)	(1484.82)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी (स)	248.78	(15.57)	213.19
नकदी या नकदी तुल्य में बढ़ोतरी / कमी (अ+व+स)	6.53	(55.02)	39.14
नकदी या नकदी तुल्य का प्रारम्भिक शेष	6.85	56.61	17.47
विलय की योजना में अर्जित नकदी और नकदी समतुल्य	8 - 9	5.26	-
नकदी या नकदी तुल्य का अंतिम शेष	13.38	6.85	56.61
		20 42 0 : 0 00	2 2 2

😮) कंपनी के पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखा नीतियों में कोई बदलाव और उनका लाभ और आरक्षित फंड पर प्रभाव वित्त वर्ष 2024–25 के लिए बैलेंस शीट कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 133 और अनुसुची-III के तहत निर्धारित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 (भारतीय लेखा मानक) और अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं और नितियों के अनुसार लागू सीमा तक तैयार की गई है।

5. निदेशकों द्वारा घोषणा क कम्पनी ने अधिनियम के प्रारम्भ से पहले और इसके पश्चात स्वीकृत जमा के प्रतिसंदाय या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई व्यतिकम नहीं किया है।

ख यह है कि निदेशक बोर्ड ने कम्पनी के कार्यों और भविष्य के सम्बन्ध में पूर्णतया समाधान कर लिया है और उनका यह विचार है कि कम्पनी की प्रत्याशित भावी वितीय स्थिति को देखते हुए कम्पनी अन्य देयताओंए जब वे बकाया

होंगीए को परा करे सकेगी और कम्पनी परिपत्र या विजापन जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिवालिया नहीं होगी

ग कम्पनी ने अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गये नियमों का अनुपालन किया है: ध अधिनयम और नियमों के अनुपालन का अर्थ यह नहीं की जमा के प्रतिसंदाय की गारन्टी केन्द्रीय सरकार की है।

💈 अधिनियम के लागू होने से पूर्व कम्पनी द्वारा स्वीकृत जमाओं का प्रतिसंदासय कर दिया गया है अथवा परिपक्वता के समय उस पर ब्याज सिहत उसका प्रतिसंदाय कर दिया जायेगा और जब तक उनका प्रतिसंदाय नहीं कर दिया जाता उन्हें प्रतिभूति रहित और अन्य प्रतिभूति रहित देनदारियों के समरूप श्रेणी में माना जाएगा;

छ जमा का प्रयोग परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र में इंगित प्रयोजनों के लिए ही किया जायेगा;

च क्रेडिट रेंटिंग में कोई प्रतिकूल परिवर्तन होने पर जमाकर्ता को बिना किसी शास्ति के जमा वापिस लेने का अवसर दिया जायेगा;

ज कम्पनी द्वारा स्वीकृत जमा (प्रतिभृत सहित जमा राशि को छोड़कर यदि कोई हो) प्रतिभृति रहित है और इसे कम्पनी की अन्य प्रतिभृति रहित देनदारी के समरूप माना जायेगा। 6. दावात्याग - यह स्पष्ट रूप से समझा जाये कि रजिस्ट्रार के पास परिपत्र अथवा विज्ञापन के प्ररूप में परिपत्र फाईल करने को यह न माना जाये कि उसे रजिस्ट्रार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा संस्वीकृति अथवा अनुमोदन दिया गय है। रजिस्ट्रार अथवा केंद्रीय सरकार की किसी जमा स्कीम की वित्तीय सुदढ़ता के लिए जिसके लिए जमा स्वीकार या आमंत्रित की गई है अथवा परिपत्र विज्ञापन के प्ररूप में परिपत्र में दिए गए विवरणों या मतों की सत्यता के लिए

कोई जवाबदेही नहीं है। जमाकर्ता जमा स्कीमों में निवेश करने से पूर्व पूरी सतर्कता बरतें। जमा आमंत्रित करने के लिए इस परिपत्र और विज्ञापन के लिए निदेशक मंउल के अधिकार व नाम में एक प्रस्ताव जारी किया जा रहा है औरी इसकी पाठ्य सामग्री मंडल द्वारा 24.06.2025 को हुई मीटिंग में स्वीकृत की गई।

डीपीटी-1 पर ऑडिटर प्रमाण पत्र

एस.आर. बटलीबॉय एंड एसोसिएट्स एलएलपी, सीजे डार्सल लोजिस्टक्स लिमिटेड वैधानिक लेखा परीक्षक इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि कंपनी ने 1 अप्रैल, 2020 रे 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए, अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में, जमा राशि के पुनर्भुगतान या स्वीकार की गई ऐसी जमा राशि पर ब्याज के भुगतान में चूक की है। हमारा प्रमाणपत्र हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों और प्रबंधन अभ्यावेदन पर आधारित है।

चार्टर्ड अकाउंटेंटर फर्म पंजीकरण संख्या 101049 डब्ल्यू/ई30000

सीजे डार्सल लोजिस्टिक्स लिमिटेड

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD. CIN: L74899DL1987PLC026617

Regd. Office: 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025 E-mail: cs@modisteel.net, Website: www.modisteel.com Phone: 011-49872442, 19. PUBLIC NOTICE – 39TH ANNUAL GENERAL MEETING

his is to inform that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of National General Industries Limited ("the Company") will be held through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular dated September 19, 2024 read with Circular dated September 25, 2023, December 28, 2022, May 5, 2022, December 14, 2021, December 8, 2021, January 13, 2021, May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated October 3, 2024 read with Circular dated October 7, 2023, January 5, 2023, May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020 (collectively referred to as Circulars), on Tuesday, 30th September, 2025 at 1:30.P.M. to transact the business as set out in the Notice of AGM which will be sent in due course of time

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2024-25, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company, Depository Participant. The members attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its members similar to earlier practices.

The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2024-25 of the Company will be available on the website of the Company at

www.modisteel.com and also be available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com, in due course of time. The members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. Detailed

instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person, to ensure compliance with the directives issued by MCA and

In case the email address is not registered with the Company / Depository Participant,

please follow the process of registering the same as mentioned below: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company,

Skyline Financial Services Private Limited at info@skylinerta.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi-110020 alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.)

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your Holding email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declared by company.

Members may also note that if your e-mail id is registered with the Company/Depository Participant, the login credentials for remote e-voting / e-voting during the AGM will be sent on the registered e-mail address along with the notice of AGM. However, members who have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as mentioned above. Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned

in the notice of AGM. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular. For National General Industries Ltd

Place: New Delhi Vandana Gupta

Date: 4th September, 2025

Rattanino

Company Secretary | A-24012

रतनइंडिया पावर लिमिटेड (CIN: L40102DL2007PLC169082)

पंजीकृत कार्यालय : ए-49, तल मंजिल, रोड नं. 4, महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037 फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777

वेबसाईट: www.rattanindiapower.com, ई-मेल: ir_rpl@rattanindia.com 18वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा

शेयरधारकों के पस्तक के परिसमापन की सचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, **रतनइंडिया पावर लिमिटेड** (कंपनी) की 18वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 26, 2025 को दोपहर 03:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्ञअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों एक सामान्य जगह पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी । सामान्य परिपत्रों संख्या के अनुसरण में परिपत्रों संख्या 2014/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्र, नवीनतम हैं, सामान्य परिपत्रों संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों (एमसीए) ("एमसीए परिपत्रों") और सेबी/एचओ/सीएफडी पीओडी-2/ पी /सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024, सेंबी द्वारा जारी ("सेंबी परिपत्रों") (इसके बाद सामृहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित किया जाता है) दिनांक सितम्बर 04, 2025 के एजीएम नोटिस में निर्दिष्ठ सभी व्यवसायों को निष्पादित करने हेत् एजीएम बुलाई गई है । एजीएम की कार्यवाही के लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। एजीएम के लिए इच्छुक सदस्य 18वीं एजीएम नोटिस में

कंपनी ने उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी के पास यानि **दिनांक अगस्त 29, 2025** को पंजीकृत हैं उन्हें एजीएम की सूचना तथा 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से **दिनांक सितंबर** 04, 2025 को भेजी जा चुकी है। इस प्रकार, नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण कट-ऑफ तिथि अर्थात 29 अगस्त, 2025 को पूरा हो गया है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 04 सितंबर, 2025 को पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 ("लिस्टिंग विनियम") के विनियम 36 (1) (बी) के अनुसार, कंपनी ने उन शेयरधारकों को पत्र भी प्रेषित किया है जिनके ई-मेल पते आरटीए/कंपनी/डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं। इस पत्र में कंपनी की वेबसाइट का वेब-लिंक उपलब्ध कराया गया है, जहाँ से वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त की

निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं।

जा सकती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम), के विनियम 44एस के अनुसार कंपनी का (आरटीए, केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड (केफिन) के द्वारा नोटिस में सुचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रहा है । इलेक्ट्रोनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता (भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर) नोटिस में दिए गए व्यवसाय पर रेकॉर्ड करने के लिए कट ऑफ दिनांक **सितंबर 19, 2025** रहेगी । दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया निर्देश लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया सहित उन शेयरधारकों के लिए जिनके ई-मेल कंपनी आरटीए या उनके संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है वह एजीएम नोटिस में निहित है ।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, संदर्भित सभी दस्तावेजों के साथ कंपनी की वेबसाईट www.rattanindiapower.com तथा https://evoting.kfintech.com (केफिन के द्वारा ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई वेबसाईट) पर तथा स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट यानि www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है । दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, दिनांक सितम्बर 23, 2025 को सुबह 10:00 बजे (IST) शुरू होगी और गुरूवार, दिनांक सितम्बर 25, 2025 को शाम 5.00 बजे (IST) समाप्त होगी ।

दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को उसके पश्चात मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा । किसी भी सदस्यों को किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात उस सदस्य को अपना मत बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । कोई भी व्यक्ति जो उक्त नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख के अनुसार शेयर रखता है, तो वह evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता हैं । जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है और वह अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं हो तो वह एजीएम के दौरान ई-बोटिंग प्रणाली के माध्यम से बोट करने के लिए पात्र होगा । जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान किया है, वह भी वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता हैं, लेकिन उसको फिर से अपना मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम में मतदान के लिए वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं ।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-बोटिंग दोनों) करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अभ्यासक कंपनी सचिव श्री.संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है ।

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित के नियम 10 के अनुसार तथा सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 42 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर और और शेयर ट्रांसफर पुस्तक शनिवार, सितम्बर 20, 2025 से शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रेहेंगे।

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी कष्ट के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, उपाध्यक्ष , केफिन टेनोलोजिज लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1800-309-4001, तथा evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड, (यूनिट : रतनइंडिया पावर लिमिटेड) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, वित्तीय जिला, गांचीबावली, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद -500 032, तेलंगाना पते पर भी लिख सकते है ।

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 04.09.2025

कंपनी सचिव

ललित नारायण मठपति

epaper.jansatta.com